

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471 | नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 1968/अग्रहायण 22, 1890
No. 471] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 1968/AGRAHAYANA 22, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th December 1968

S.O. 4467.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

In Part 'A' of Schedule I to the said Order, for the existing entries against items 10 and 12, the following shall be substituted:—

Item No. 10 "Wheat and Wheat flour including Suji and Rawa".

Item No. 12 "Pulses, Lentils, Grams and Beans, and flour made therefrom".

[No. E(C)O.1968/AM(18).]

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

(1443)

